



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 48| नई दिल्ली, नवम्बर 25—दिसम्बर 1, 2012, शनिवार/अग्रहायण 4—अग्रहायण 10, 1934  
No. 48| NEW DELHI, NOVEMBER 25—DECEMBER 1, 2012, SATURDAY/AGRAHAYANA 4—AGRAHAYANA 10, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पुस्तक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खंड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2012

(आय-कर)

सा.का.नि. 284.—दिनांक 22-6-1988 की पहली अधिसूचना सं. सा.का.नि. 725 की निरंतरता में तथा पूंजीगत अभिलाष खाता योजना, 1988 के पैराग्राफ 2 के खंड (ड) के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीबीआई बैंक लि. की सभी शाखाओं (ग्रामीण शाखाओं को छोड़कर) को उक्त योजना के तहत जमा प्राप्त करने और खाते के रखरखाव के लिए अधिकृत करती है।

**स्पष्टीकरण :** इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, आईडीबीआई बैंक के संबंध में ग्रामीण शाखा का अर्थ किसी ऐसी शाखा से है जो एक ऐसे केन्द्र में स्थित और कार्यरत है जिसकी आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार दस हजार से कम है।

[फा. सं. 225/19/2011-आ.क.नि.-II]

सुरभि शर्मा, अवर सचिव (आयकर निरीक्षण-I)

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 29th November, 2012

**(INCOME-TAX)**

**G.S.R. 284.**—In continuation to the earlier Notification No. G.S.R. 725 (E) dated 22-6-1988 and in pursuance of clause (e) of paragraph 2 of the Capital Gains Account Scheme, 1988, the Central Government hereby authorises all the branches (except rural branches) of IDBI Bank Ltd. to receive deposits and maintain accounts under the said scheme.

**Explanation :** For the purposes of this notification, a rural branch, in relation to the IDBI Bank Ltd., means a branch which is situated and is functioning at a centre, the population whereof, in accordance with the 2001 census is less than ten thousand.

[F.No.225/19/2011-ITA-II]

SURABHI SHARMA, Under Secy. (ITA-I)

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2012

**सा.का.नि. 285.**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गीत और नाटक प्रभाग (निदेशक) भर्ती नियम, 2010 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गीत और नाटक प्रभाग में निदेशक (समूह 'क') के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गीत और नाटक प्रभाग (निदेशक) भर्ती नियम, 2012 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**लागू होना :** ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ में विनिर्दिष्ट पद/पदों को लागू होंगे।

**2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता.—**वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रिक्तियों पर प्रधान-व्यक्ति, शिक्षक-व्यक्ति सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निश्चित किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्वार्द्ध सीमाओं और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	व्यक्तिगत	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक	01 * (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सर्वोच्च केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', (राजकीय), अनुसूचित	वेतन बैंड-4, में वेतनमान (37400-67000 रु. + (ग्रेड वेतन 8700 रु.)	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए संबंधित तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पणी : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख, जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से डिप्लोमा या समतुल्य;	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सर्विदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(7)

- (ii) ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी सरकारी या अर्धसरकारी या स्वायत्त संगठन में कला प्रदर्शित करने वाले क्रियाशील रंगमंच में कला प्रस्तुतीकरण के क्षेत्र में अर्थात् संगीत थिएटर, नृत्य, नाटक, नृत्य-नाट्य, गीत नाट्य, फिल्म, लोक कला का कम से कम 12 वर्ष का अनुभव हो।

टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तक शिथिल की जा सकती हैं। जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपाक्षित अनुभव रखन वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय :

- (i) राष्ट्रीय क्रियाकलाप विकास के लिए जन-संचार के माध्यम के रूप में नाट्य रीति के उपयोग का अनुभव।
- (ii) रंगमंच, रेडियो या टेलीविजन के लिए, विशेष रूप से सामाजिक अर्थपूर्ण तमाशा नाटक करने का अनुभव।
- (iii) सिनेमा रचने का अनुभव; या
- (iv) हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है)</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या अनुसंधान संस्थाओं या अर्ध सरकारी संगठनों के ऐसे अधिकारी :—</p> <p>(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :—</p> <p>1. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (जो गीत और नाटक प्रभाग के संबंध में कार्य-वाही करता हो)</p> <p>—अध्यक्ष</p>	<p>प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।</p>

(11)

(12)

(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3, के वेतनमान 15,600—39,100 रु. + ग्रेड वेतन 7,600 रु. वाले पदों में पांच वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य; और

2. अपर महानिदेशक, आकाशवाणी —सदस्य  
3. अपर महानिदेशक, दूरदर्शन —सदस्य

(ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण 1 : ऐसे विभागीय संयुक्त निदेशक जिन्होंने वेतन बैंड-3 के वेतनमान 15,600—39,100 रु. + ग्रेड वेतन 7,600 रु. की श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, पर अन्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उस पद पर भी नियुक्ति के लिए उसका चयन कर लिया जाता है, तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा।

टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4 : प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

[फा. सं. 1/2(4)/2010-एफ एस]

नीरज कुमार, अवर सचिव

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 14th November, 2012

G. S. R. 285.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, in supersession of the Song and Drama Division, (Director) Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for

the post of Director (Group 'A') in Song and Drama Division of the Ministry of Information and Broadcasting of the Government of India, namely :—

1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Information and Broadcasting, Song and Drama Division, (Director) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said post, its classification, and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other specified categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band and Grade pay/ Pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director	*01 (2012) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-4 in the pay scale of Rs. 37400—67000 with Grade Pay of Rs. 8700.	Not applicable	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
					Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and

(6)

not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for Direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential :</b></p> <p>(i) Degree from a recognised University or Diploma from the National School of Drama or equivalent;</p> <p>(ii) Persons possessing at least 12 years experience in the field of performing arts such as, music, theatre, dance, drama, ballets, opera, films, folk-arts in any Government or semi-Government or autonomous organization engaged in live stage performing arts.</p>	No	One year for direct recruits	By promotion/deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.
<p><b>Note 1 :</b> Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p>			
<p><b>Note 2 :</b> The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of</p>			

(7).

selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

**Desirable :**

- (i) experience in the use of dramatic forms as a medium of mass communication for national development activities;
- (ii) experience of playwriting for stage, radio or television, especially socially purposeful plays;
- (iii) Experience of cinematic production; or
- (iv) working knowledge of Hindi.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion/Deputation (including short-term contract) : Officers of the Central or State Government or Union Territory Administrations or Statutory or Autonomous Organisations or Research Institutions or Semi-Government Organisation : (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years' regular service in posts in pay band-3 in the pay scale of Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay of Rs. 7600 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : 1. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting (dealing with Song and Drama Division)—Chairman. 2. Additional Director General, All India Radio—Member 3. Additional Director General, Doordarshan—Member	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

**Note 1 :** The Departmental Joint Director with five years' regular service in the grade of Pay Band-3 in the pay scale of Rs. 15,600—39,100 with Grade Pay of Rs. 7600 will also be considered along with others and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

**Note 2 :** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible



(11)

for consideration for appointment for deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 3 :** Period of deputation/contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed 5 years.

**Note 4 :** For the purposes of appointment by promotion or deputation /absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st day of January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without upgradation.

[F.No. 1/2(4)/2010-FS]

NEERAJ KUMAR, Under Secy.

### सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2012

**सा.का.नि. 286.**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सांख्यिकी विभाग समूह 'ग' (स्टाफ कार चालक) भर्ती नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी I, स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी II, और स्टाफ कार ड्राइवर साधारण श्रेणी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी I, स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-II और स्टाफ कार ड्राइवर सामान्य श्रेणी समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इस नियम से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **आरंभिक गठन.**—इन नियमों के उपबन्धों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस विषय पर कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसरण में प्रत्येक श्रेणियों अर्थात् स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी I और स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी II में निश्चित रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्त सभी व्यक्ति इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को अपनी-अपनी श्रेणी में नियुक्त किये जाएंगे।

6. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी।	03* (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + (ग्रेड वेतन 2800 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता		
(7)	(8)	(9)	(10)		
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति।		
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा			
(11)	(12)	(13)			
प्रोन्नति द्वारा : ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-II जो नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत है और समय-समय पर यथा संशोधित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22036/1/92-स्था. (डी) तारीख 30 नवम्बर, 1993 के संलग्नक-1 में यथा अंतर्विष्ट समुचित मानक का व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के अध्यधीन हैं।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. उप सचिव (प्रशासन)–अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन)–सदस्य 3. किसी अन्य मंत्रालय से अवर सचिव–सदस्य	लागू नहीं होता।			

(11)

टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत है और समय-समय पर यथा संशोधित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22036/1/92-स्था. (डी) तारीख 30 नवम्बर, 1993 के संलग्नक-1 में यथा अंतर्विष्ट समुचित मानक का व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के अध्यक्षीन हैं।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थान ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार डाइवर साधारण श्रेणी-I	03* (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', 5200-20200 रु. अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, + (ग्रेड वेतन 1900 रु.)	लागू नहीं होता	25 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (सिवाय अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के)।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक :	लागू नहीं होता	दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रति- नियुक्ति/पुनर्नियोजन।
(i) मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखता हो;			
(ii) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान (अभ्यर्थी को यान में छोटी-मोटी त्रुटियों को दूर करने में समर्थ हो);			
(iii) मोटर कार चलाने का तीन वर्ष का अनुभव हो; और			
(iv) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10 उत्तीर्ण।			

(7)

वैयक्तिक : होम गार्ड या नागरिक स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा हो।

टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब स्थिति की जा सकती है जब तदन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए अशिक्षित रिक्रियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(11)

(12)

(13)

आमेलन :

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जिसके अंतर्गत संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय भी है, ऐसे सवार हरकार समूह 'ग' या बहुकार्य कर्मचारीवृन्द समूह 'ग' में से जिसके पास मोटर कार चलाने की सक्षमता निर्धारित करने वाली विधिमान्य अनुज्ञप्ति है, जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों के ऐसे कर्मचारियों में जो नियमित आधार पर सवार हरकार या नियमित बहुकार्य कर्मचारीवृन्द समूह 'ग' उपयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एका से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन किसी किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थान ग्रेड में, विस्तारित होगा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा सम्प्राप्ति जाएगी।

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

1. उप सचिव (प्रशासन) — अध्यक्ष
2. अवर सचिव (प्रशासन) — सदस्य
3. किसी अन्य मंत्रालय से अवर सचिव — सदस्य

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार डाइवर श्रेणी II	03* (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचित	श्रेणियाँ बैंड-1, 5200-20200 रु. + (ग्रेड वेतन 2400 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता।

(7)

(8)

(9)

(10)

लागू नहीं होता।

लागू नहीं होता।

लागू नहीं होता।

प्रोन्नति।

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति द्वारा :</b>  ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर साधारण ग्रेणी जो नियमित आधार पर वेतन बैंड-1 ग्रेड वेतन 1800 रु. में पद धारण किए हुए हैं। जो स्तंभ (7) में यथा उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हैं।</p> <p><b>भूतपूर्व सैनिकों के लिए :</b>  प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :  सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन बने रहने दिया जा सकता है; (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उप सचिव (प्रशासन)—अध्यक्ष</li> <li>2. अवर सचिव (प्रशासन)—सदस्य</li> <li>3. किसी अन्य मंत्रालय से अवर सचिव —सदस्य</li> </ol>	<p>लागू नहीं होता।</p>

[फा. सं. ए-12012/10/2011-प्रशासन 2]

एस. के. राय, अवर सचिव

## MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi, the 27th November, 2012

**G.S.R. 286.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Statistics Group 'C' (Staff Car Driver) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Drive Grade I, Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver Ordinary Grade in the Ministry of Statistics and Programme Implementation, namely :—

1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Staff Car Driver Grade I, Grade II and Ordinary Grade, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Initial Constitution.**—Notwithstanding anything contained in the provisions of these rules all persons appointed to each Grades namely Staff Car Driver Grade I and Staff Car Driver Grade-II against the regular vacancies, in accordance with instructions issued by DOP&T on the subject from time to time, on the date of publication of these rules in the Official Gazette, shall be deemed to have been appointed in the respective grades under these rules.

6. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of Posts	Classification	Pay band and Grade Pay or Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Staff Car Driver Grade-I	*3 (2012) *Subject to variation dependent upon work-load.	General Central Service, Group 'C', non-Gazetted, non-Ministerial.	Pay Band-I. Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2800.
Whether Selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	
(5)	(6)	(7)	
Non-selection	Not applicable	Not applicable	
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various method	
(8)	(9)	(10)	
Not applicable	Not applicable	Promotion	
In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
(11)	(12)	(13)	
<b>By Promotion :</b> Staff Car Driver Grade-II working with five years service in the grade after appointment thereto on regular basis and shall be further subject to passing of a Trade Test of appropriate standard as contained in the Annexure-I to DOP&T's OM No. 22036/1/92-Estt.(D) dated the 30th November, 1993, as amended from time to time.		Group 'C' Departmental Promotion Committee, for promotion, consisting of : 1. Deputy Secretary (Admn.)—Chairman 2. Under Secretary (Admn.)—Member 3. Under Secretary from any other Ministry—Member	
<b>Note :</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission Recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.		Not applicable.	

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Staff Car Driver Grade-II	3*(2012) *Subject to variation dependent upon work-load.	General Central Service, Group 'C', non-Gazetted, non-Ministerial.	Pay Band-I, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400.

(5)	(6)	(7)
Non-selection	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Promotion.

(11)	(12)	(13)
------	------	------

**By Promotion :**

Staff Car Driver Ordinary Grade working with eight years service in the grade after appointment thereto on regular basis and shall be further subject to passing of a Trade Test of appropriate standard as contained in the Annexure-I to DOP&T's OM No. 22036/1/92-Estt.(D) dated the 30th November, 1993, as amended from time to time.

Group 'C' Departmental Promotion Committee, for promotion, consisting of :

1. Deputy Secretary (Admn.)—Chairman
2. Under Secretary (Admn.)—Member
3. Under Secretary from any other Ministry—Member

Not applicable.

**Note :** For the propose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission Recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Staff Car Driver Ordinary Grade	3*(2012) *Subject to variation dependent upon work-load.	General Central Service, Group 'C', non-Gazetted, non-Ministerial.	Pay Band-I, Rs. 5200—20200 plus grade pay of Rs. 1900.

(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Not exceeding 25 years. <b>Note 1 :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	<b>Essential :</b> (i) possession of a valid driving license for Motor Cars; (ii) Knowledge of Motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicle); (iii) experience of driving a Motor Car for three years; and

(6)	(7)	
<b>Note 2 :</b> In the case of recruitment made through employment exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	(iv) 10th pass from a recognized Board. <b>Desirable :</b> Three years service as Home Guard or Civil volunteers. <b>Note :</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	Deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Ex-servicemen : Deputation/re-employment.
(11)	(12)	(13)
<b>Absorption :</b> (i) From amongst the regular Despatch Rider, Group 'C' or Multi Tasking Staff, Group 'C' employees, in PB-I with Grade pay of Rs. 1800 in the Ministry of Statistics and Programme Implementation including its Attached/Subordinate Offices who possess a valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars falling which from officials holding the post of Despatch Rider on regular basis or regular Multi Tasking Staff, Group 'C' employees in PB-I with Grade Pay of Rs. 1800 in other Ministries of the Central Government; who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column (7).	Group 'C' Departmental Promotion Committee, for confirmations consisting of : 1. Deputy Secretary (Admn.)—Chairman 2. Under Secretary (Admn.)—Member 3. Under Secretary from any other Ministry—Member	Not applicable.
<b>For Ex-servicemen :</b> Deputation/re-employment. <b>Note :</b> The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment; (the period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).		



## रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2012

सा.का.नि. 287.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) सहायक आयुक्त (जहाजरानी) भर्ती नियम, 1999 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले हो चुके अथवा नहीं हो सके संबंधित कार्यों को छोड़कर, राष्ट्रपति एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों को रसायन और उर्वरक मंत्रालय, (उर्वरक विभाग) सहायक आयुक्त (जहाजरानी) भर्ती नियम, 2012 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण, पे-बैंड और ग्रेड-पे अथवा वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनसे संबद्ध पे-बैंड और ग्रेड-पे या वेतनमान इन नियमों की संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) तक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पद की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. अनर्हताएं.—कोई व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह का करार किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने, पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह का करार किया हो,

वह उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उस व्यक्ति अथवा विवाह की दूसरी पार्टी के लिए लागू निजी कानून के अंतर्गत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम से मुक्त कर सकती है।

5. छूट की शक्ति.—यदि केन्द्र सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक और उचित है, तो वह आदेश के जरिए और इसके कारणों को लिखित में रिकार्ड करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी व्यक्ति के वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी प्रावधान में छूट दे सकती है।

6. संरक्षण.—इन नियमों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड और ग्रेड-पे/वेतनमान	क्या प्रवरण पद अथवा गैर-प्रवरण पद है	सीधी भर्ती की आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक आयुक्त (जहाजरानी)	01* (2012) * कार्य की अधिकता के आधार पर विभिन्नता।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'क' राजपत्रित, अलिपिक वर्गीय।	पे-बैंड-3 (15600-39100 रुपए + ग्रेड-पे 6600 रु.)	लागू नहीं	आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सहायक सेवाओं के लिए पांच वर्ष तक की छूट)।  नोट : आयु-सीमा का निर्धारण करने के लिए नियत तारीख भारत में अभ्यर्थियों से

(6)

आवेदन-पत्र की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (और यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उप-प्रभाग, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप में रह रहे अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी)।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता पदोन्नति पाने वालों पर लागू होगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
<b>अनिवार्य :</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री ; (ii) शिपिंग अथवा चार्टरिंग ऑफ शिप अथवा बन्दरगाह प्रचालन में पांच वर्ष का अनुभव ।	लागू नहीं ।	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष ।	मिश्रित पद्धति द्वारा, प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि सविदा सहित) सह पदोन्नति अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा ।
<b>वांछनीय :</b> नरोत्तम दास मोरारजी इंस्टीट्यूट ऑफ शिपिंग, मुम्बई या भारत सरकार, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय या पोत मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य किसी संस्थान से शिपिंग में एसोसिएटशिप अथवा फेलोशिप अथवा डिप्लोमा ।			
<b>दिष्पणी 1 :</b> अभ्यर्थियों के अन्यथा योग्य होने की स्थिति में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हता में छूट दी जाती है जिसके कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा ।			
<b>दिष्पणी 2 :</b> यदि चयन के किसी स्तर पर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग का मत है कि इन समुदायों			

(7)

से अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना न हो तो अनुभव के संबंध में अर्हता पर संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर छूट दी जा सकती है जिसे लिखित में दर्ज किया जाएगा।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियाँ जिसमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने में परामर्श लिया जाना हो
--	---	---

(11)

(12)

(13)

समेकित पद्धति, [पदोन्नति सह प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)]: केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों अथवा बंदरगाह न्यासों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी :

समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति, प्रत्येक बार संघ लोक सेवा पुष्टि पर विचार करने के लिए : आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है।

- (क)(i) मूल संवर्ग अथवा संगठन में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किए हों; अथवा
- (ii) पे-बैंड-3, 15600-39100 रुपए, ग्रेड-पे 5400 रुपए अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में समान पद पर पांच वर्ष की सेवा की हो; अथवा
- (iii) पे-बैंड-2, 9300-34800 रुपए ग्रेड-पे 4800 रुपए अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग में समान पद पर छह वर्ष की सेवा की हो; और

1. संयुक्त सचिव (प्रशा.)—अध्यक्ष
2. निदेशक (संचलन)—सदस्य
3. निदेशक (प्रशा.) अथवा उप सचिव (प्रशा.)—सदस्य

(ख) कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव धारित किए हों।

नोट 1 : विभागीय सहायक निदेशक (जहाजरानी) जिसने इस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, पर भी प्रतिनियुक्तों के साथ-साथ विचार किया जाएगा और यदि नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाता है तो इस पद को पदोन्नति के जरिए भरा गया पद माना जाएगा।

नोट 2 : जहां कनिष्ठ अधिकारियों जिन्होंने अपनी अर्हकारी अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पर पदोन्नति हेतु विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हकारी अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हकारी अथवा पात्रता सेवा की आधी से अथवा दो वर्ष से कम, जो भी कम हो, नहीं हो और अपने कनिष्ठ अधिकारियों जिन्होंने ऐसी अर्हकारी अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, के साथ-साथ इन्होंने अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक, पूरी कर ली हो।

(11)

**नोट 3 :** पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा की गणना के उद्देश्य से, किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006, वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा लागू किया गया है, से पहले नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए तदनुसूची ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा। फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर तैनात व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होगा।

इसी या किसी अन्य संगठन अथवा केन्द्र सरकार के कुछ अन्य विभागों में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व-धारित अन्य संवर्ग बाह्य पदों में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

**टिप्पणी :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति से प्रयोजनार्थ 01-01-2006 से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा अथवा तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचों का विस्तार किया गया है, को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुसूची ग्रेड वेतन अथवा दिए गए वेतनमान में की जाने वाली सेवा मानी जाएगी, जहां सामान्य ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान सहित एक ग्रेड में एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान का विलय हुआ हो, और जहां लाभ केवल पद (पदों) को ही दिया जाएगा, जिसके लिए संबंधित ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो।

[फा. सं. ए-42011/04/2009-मा.सं. II]

सौमित्र चंदा, अवर सचिव

## MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Fertilizers)

New Delhi, the 29th November, 2012

**G.S.R. 287.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Fertilizers) Assistant Commissioner (Shipping) Recruitment Rules, 1999, except as respect things done or omitted to be done, before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Fertilizers) Assistant Commissioner (Shipping) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said post, its classification, the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule Annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in the columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.—No person :—**

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and Grade pay/ Pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Commissioner (Shipping)	01* (2012) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-3, Rs. 15,600-39,100 plus (Grade pay of Rs. 6,600)	Not applicable	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

**Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-division of

(6)

Chamba District of  
Himachal Pradesh,  
Andaman and Nicobar  
Islands and  
Lakshadweep)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
---	--	-----------------------------	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Essential :</b> (i) Degree of a recognized University. (ii) Five years experience of shipping or chartering of ships or Port operations.	Not applicable	One year for Direct recruits.	By Composite method, deputation (including short term contact) plus promotion failing which by direct recruitment.

**Desirable :** Associateship or Fellowship or Diploma in shipping from the Narottam Das Morarji Institute of Shipping, Mumbai or any other Institute recognized by the Government of India, Ministry of Human Resource and Development or Ministry of Shipping.

**Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee Exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Composite method [promotion plus deputation (Including short term contract)] :</p> <p>Officers from the Central Government or State Governments or Union Territories or Port Trusts or Public Sector Undertakings :</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or organization; or</p> <p>(ii) With five years' service in the posts in the pay band-3, Rs. 15600—39100 with grade pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) With six years' service in the posts in the pay band-2, Rs. 9300—34800 with grade pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation)</p> <p>1. Joint Secretary (Administration)—Chairman</p> <p>2. Director (Movement)—Member</p> <p>3. Director (Administration) or Deputy Secretary (Administration)—Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.</p>

**Note 1 :** The Departmental Assistant Director (Shipping) with five years' regular service in the grade will also be considered along with deputationists and in case he is selected for appointment, the post shall be deemed to have been filled by promotion.

**Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note 3 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01-01-2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(11)

[Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.]

**Note 4 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where the benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

[F. No. A-42011/04/2009-HR-II]  
SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

### कृषि मंत्रालय

( पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग )

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2012

**सा.का.नि. 288.**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समेकित मात्स्यिकी परियोजना सहायक इंजीनियर (कर्मशाला) भर्ती नियम, 1983 और समेकित मात्स्यिकी परियोजना (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1977 को जहां तक ये सहायक इंजीनियर (डिजाइन) के पद से संबंधित हैं उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अधीन सहायक इंजीनियर (कर्मशाला), सहायक इंजीनियर (डिजाइन) और अधीक्षण (योजना, अनुसूचना और नियंत्रण) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बसाते हैं, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, सहायक इंजीनियर (कर्मशाला), सहायक इंजीनियर (डिजाइन) और अधीक्षण (योजना, अनुसूचना और नियंत्रण) भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.**— उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।



## 4. निरर्हता.—कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

## अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक इंजीनियर (कर्मशाला)	01(एक)*(2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'ख', राजपत्रित, अनुसूचिवीय ।	वेतन बैंड (वे.बैं- 2) 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता ।	30 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।  टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखण्ड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
--	--	------------------------------	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<b>अवश्यक :</b> (क)(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी या समुद्री इंजीनियरी में डिग्री । (ii) किसी मान्यताप्राप्त समुद्री इंजीनियरी कर्मशाला में अनुरक्षण और यान या पोतों (जलावतरण मंच या गोदी में) के मरम्मत कार्य की अधीक्षण क्षमता में दो वर्ष का अनुभव; या (ख)(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान के यांत्रिकी या समुद्री इंजीनियरी में डिप्लोमा । (ii) किसी मान्यताप्राप्त समुद्री इंजीनियरी कर्मशाला में अनुरक्षण और यान या पोतों (जलावतरण मंच या गोदी में) के मरम्मत कार्य की अधीक्षण क्षमता में दो वर्ष का अनुभव ।	नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती । टिप्पण : किसी पद धारी द्वारा प्रतिनियुक्ति लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या एक वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए अन्य परिस्थितियों के अधीन कारित रिक्तियां प्रतिनियुक्ति पर केन्द्रीय सरकार के उन पद धारियों में से भरी जा सकेंगी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं और स्तंभ 7 पर सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों ।

टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब तक शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	पुष्टि के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. महाप्रदेशक, भारतीय मातृस्यकी सर्वेक्षण, मुम्बई—अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(12)

2. उप सचिव या अपर सचिव, कृषि मंत्रालय, पशु-पालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, नई दिल्ली —सदस्य
3. उप महानिदेशक (मात्स्यिकी) या उप महानिदेशक (इंजीनियरी), भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई —सदस्य
4. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक इंजीनियर (डिजाइन)	01(एक)*(2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय वेतन बैंड (वे.बैं- सेवा, समूह 'ख', 2) 9300—34800 रु. राजपत्रित, + ग्रेड वेतन 4600 रु. अननुसन्धिवीय।	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं।	टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिक्षित की जा सकती है।
					टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक :	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती।
(क)(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी इंजीनियरी में डिग्री।			

(7)

(ii) किसी मान्यताप्राप्त समुद्री इंजीनियरी कर्मशाला के जलावतरण मंच या गोदी में डाकिंग के लिए यानों के प्रोफाइल उपयुक्त ब्लाकों के बैठाने की डिजाइन करने की अधीक्षण क्षमता में दो वर्ष का अनुभव ; या

(ख)(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान के यांत्रिकी इंजीनियरी में डिप्लोमा ।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त समुद्री इंजीनियरी कर्मशाला के जलावतरण मंच या गोदी में डाकिंग के लिए यानों के प्रोफाइल उपयुक्त ब्लाकों के बैठाने की डिजाइन करने में अधीक्षण क्षमता में तीन वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब तक शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अभिक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	<p>पुष्टि के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. महानिदेशक, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई—अध्यक्ष</li> <li>2. उप सचिव या अवर सचिव, कृषि मंत्रालय, पशु-पालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, नई दिल्ली—सदस्य</li> <li>3. उप महानिदेशक (मात्स्यिकी) या उप महानिदेशक (इंजीनियरी), भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई—सदस्य</li> <li>4. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई—सदस्य</li> </ol>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. अधीक्षक (योजना, अनुसूचना और नियंत्रण)	01(एक)*(2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय वेतन बैंड (वे.बैं-2) सेवा, समूह 'ख', 9300-34800 रु. राजपत्रित, + ग्रेड वेतन 4200 रु. अननुसचिवीय	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं	टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।  टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आबेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नमालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उप-खण्ड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी इंजीनियरी में डिग्री। वांछनीय : समुद्री इंजीनियरी कर्मशाला के योजना विभाग में एक वर्ष का अनुभव या आवश्यक : (ख)(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान के यांत्रिकी इंजीनियरी में डिप्लोमा। (ii) किसी मान्यताप्राप्त समुद्री इंजीनियरी कर्मशाला में समुद्री क्राफ्ट के अनुरक्षण या मरम्मत का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार कारण लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : किसी पद्धतारी द्वारा प्रतिनियुक्ति लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या एक वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए अन्य परिस्थितियों के अधीन कारित रिक्तियां प्रतिनियुक्ति पर केन्द्रीय सरकार के उन पद धारियों में से भरी जा सकेंगी जो नियमित आधार पर सदा पद धारण कर रहे हैं और स्तंभ 7 पर सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों।

(7)

**टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार कारण लेखबद्ध करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	<p>पुष्टि के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. महानिदेशक, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई—अध्यक्ष</li> <li>2. उप सचिव या अवर सचिव, कृषि मंत्रालय, पशु-पालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, नई दिल्ली—सदस्य</li> <li>3. उप महानिदेशक (मात्स्यिकी) या उप महानिदेशक (इंजीनियरी), भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई—सदस्य</li> <li>4. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई—सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

[ फा. सं. 2-13/2009-एफ वाई. प्रशा. ]  
सुदीपा कोहली, अवर सचिव

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 21st November, 2012

**G.S.R. 288.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Integrated Fisheries Project Assistant Engineer (Workshop) Recruitment Rules, 1983 and Integrated Fisheries Project (Group B posts) Recruitment Rules, 1977 in so far as they relate to the post of Assistant Engineer (Design), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Engineer (Workshop), Assistant Engineer (Design) and Superintendent (Planning, Scheduling and Control) in the Fishery Survey of India, Mumbai under the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Fishery Survey of India Assistant Engineer (Workshop), Assistant Engineer (Design) and Superintendent (Planning, Scheduling and Control) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band, grade pay or pay scale.**—The number of posts, their classification, and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Engineer (Workshop)	*01 (One) (2012) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band (PB2) of Rs. 9300-34800 + Grade pay of Rs. 4,600	Not applicable	Not exceeding 30 years. <b>Note 1 :</b> (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note 2 :</b> The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from candidates except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of

(6)

Chamba District of  
Himachal Pradesh,  
Andaman and Nicobar  
Islands and  
Lakshadweep)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
---	---	-----------------------------	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential :</b></p> <p>(A)(i) Degree in Mechanical or Marine Engineering of a recognised University.</p> <p>(ii) Two years' experience in the supervisory capacity in maintenance and repair works of vessels or ships (in Slipway or Dockyard) in a recognised Marine Engineering Workshop.</p> <p>OR</p> <p>(B)(i) Diploma in Mechanical or Marine Engineering of a recognised University or Institution.</p> <p>(ii) Three years' experience in the supervisory capacity in maintenance and repair works of vessels or ships (in Slipway or Dockyard) in a recognised Marine Engineering Workshop.</p>	No	Two years	<p>Direct recruitment.</p> <p><b>Note :</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at column 7.</p>

**Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion



(7)

that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee Exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'B' Departmental Promotion Committee for confirmation : 1. Director General, Fishery Survey of India, Mumbai—Chairman 2. Deputy Secretary or Under Secretary Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, New Delhi—Member 3. Deputy Director General (Fisheries) or Deputy Director General (Engineering), Fishery Survey of India, Mumbai—Member 4. Sr. Administrative Officer, Fishery Survey of India, Mumbai—Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Engineer (Design)	01* (One) (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band (PB-2) of Rs. 9300—34800 + (Grade pay of Rs. 4,600).	Not applicable	Not exceeding 30 years. Note 1 : Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,

(6)

Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)

(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Essential :</b>	Not applicable.	Two years.	Direct recruitment.

- (A) (i) Degree in Mechanical Engineering of a recognised University.  
(ii) Two years' experience in the supervisory capacity in designing the fixing of blocks suiting to the vessels' profile for docking in Slipway or in Dockyard of a recognised Marine Engineering Workshop.

OR

- (B) (i) Diploma in Mechanical Engineering of a recognised University or Institution.  
(ii) Three years' experience in the supervisory capacity in designing the fixing of blocks suiting to the vessels' profile for docking in Slipway or in Dockyard of a recognised Marine Engineering Workshop.

**Note 1 :** Any Qualifications is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities, possessing the requisite experience, are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'B' Departmental Promotion Committee for confirmation : 1. Director General, Fishery Survey of India, Mumbai—Chairman 2. Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, New Delhi—Member 3. Deputy Director General (Fisheries) or Deputy Director General (Engineering), Fishery Survey of India, Mumbai—Member 4. Sr. Administrative Officer, Fishery Survey of India, Mumbai—Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Superintendent (Planning, Scheduling and Control)	01* (One) (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band (PB-2) of Rs. 9300—34800+ Grade pay of Rs. 4,200	Not applicable.	Not exceeding 30 years. Note 1 : Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India, (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential : (A) Degree in Mechanical Engineering of a recognised University.	Not applicable.	Two years.	Direct recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness

(7)	(10)
<p><b>Desirable :</b> One year experience in the Planning Department of a Marine Engineering Workshop.</p> <p><b>OR</b></p> <p><b>Essential :</b> (B) (i) Diploma in Mechanical Engineering of a recognised University or Institution. (ii) Two years' experience in maintenance and repair of Marine Craft in a recognised Marine Engineering Workshop.</p>	<p>or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at column 7.</p>

**Note 1 :** Any qualification are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2 :** The qualification regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director General, Fishery Survey of India, Mumbai—Chairman</li> <li>2. Deputy Secretary or Under Secretary Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, New Delhi—Member</li> <li>3. Deputy Director General (Fisheries) or Deputy Director General (Engineering), Fishery Survey of India, Mumbai—Member</li> <li>4. Sr. Administrative Officer, Fishery Survey of India, Mumbai—Member</li> </ol>	Not applicable.

[F. No. 2-13/2009-Fy. Admn.]  
SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2012

स.क.वि. 289.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परनुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय मारिस्सकी सर्वेक्षण मुम्बई, निदेशक (इंजीनियरी) भर्ती नियम, 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अधीन भारतीय मारिस्सकी सर्वेक्षण मुम्बई में निदेशक (इंजीनियरी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मारिस्सकी सर्वेक्षण मुम्बई, निदेशक (इंजीनियरी) भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक (इंजीनियरी)	01 * (एक) (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए

(6)

नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख, जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)

(8)

(9)

आवश्यक :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यॉंत्रिक इंजीनियरी या समुद्रीय इंजीनियरी में डिग्री ;

(ii) महासागरगामी जलयान तथा उनके मशीनरी और उपस्करों की मरम्मत और रख-रखाव में दस वर्ष का अनुभव ।

**टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

**टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

**वाछनीय :** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेकैनिक्ल इंजीनियरी अथवा समुद्रीय इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री ।

आयु : हां

शैक्षिक अर्हताएं : हां

सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति के लिए एक वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)

प्रोन्नति : ऐसे यांत्रिकी समुद्रीय इंजीनियर, जिनकी वेतन बैंड-15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 6600 रु. वेतनमान में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा है।

टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन में किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति : (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है)

केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों या लोक उपक्रमों या स्वायत्त संगठनों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जो मूल काडर या विभाग में वे. बैं.-3, वेतनमान 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वहाँ उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा रखते हैं ; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण : 1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(11)

**टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन में किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाए उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग — सदस्य
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग — सदस्य
4. महानिदेशक, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण — सदस्य
5. मात्स्यिकी विकास आयुक्त, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग — सदस्य

सीधी भर्ती और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय और इन नियमों के किसी उपबन्ध का संशोधन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

1. संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग — अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग — सदस्य
3. महानिदेशक, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण — सदस्य
4. मात्स्यिकी विकास आयुक्त, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग — सदस्य

[फा. सं. 2-8/2010-मा. प्रशा.]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव



New Delhi, the 21st November, 2012

**G.S.R. 289.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Fishery Survey of India, Director (Engineering) Recruitment Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Engineering) in Fishery Survey of India, Mumbai under the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Fishery Survey of India Director (Engineering) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band, grade pay or pay scale.**—The number of the posts, its classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for Direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director (Engineering)	*1 (One) 2012 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-3, Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 7600	Selection	Not exceeding 50 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date

4326 2/12-6

(6)

prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees

Period of probation, if any

(7)

(8)

(9)

**Essential :** (i) Degree in Mechanical Engineering or Marine Engineering from a recognized University.

(ii) Ten years' experience in repairs and maintenance of ocean going vessels and their machinery and equipments.

**Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2 :** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

**Desirable :** Master's degree in Mechanical Engineering or Marine Engineering from a recognized University.

Age : No

Educational qualifications : Yes

One year for direct recruits

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(10)

(11)

Promotion failing which by deputation (including short-term contract) failing both by direct recruitment.

**Promotion :**

Mechanical Marine Engineer in the pay band-3 of 15600-39100 + grade pay of 6600 with 5 years' regular service in the grade.

**Note 1.**—Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note 2.**—For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

**Deputations (including Short Term Contract) :**

Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Public Undertakings or Autonomous Organizations or Recognized Research Institutions or Councils :

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band (PB-3) of Rs. 15600-39100 + grade pay of Rs. 6600 or equivalent in the present cadre or Department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

**Note 1.**—The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date for receipt of applications.

(11)

**Note 2.**—For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—

1. Chairman or Member, Union Public Service Commission — Chairman
2. Joint Secretary (Fishery), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries — Member
3. Joint Secretary (Administration), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries — Member
4. Director General, Fishery Survey of India — Member
5. Fisheries Development Commissioner, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries — Member

Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on Deputation (including short term contract).

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—

1. Joint Secretary (Fishery), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries — Member
2. Joint Secretary (Administration), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries — Member
3. Director General, Fishery Survey of India — Member
4. Fisheries Development Commissioner, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries — Member

[F. No. 2-8/2010-Fy. Admn.]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

सा.का.नि. 290.— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संगरोध अधिकारी, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय भर्ती नियम, 1986 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय के अधीन पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अधीनस्थ कार्यालय में पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा में संगरोध अधिकारी पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संगरोध अधिकारी समूह 'क', पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भर्ता नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.— उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
संगरोध अधिकारी	04 *(2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड (वे.बैं-3) 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता।	35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
टिप्पणी : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में					

(6)

अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखण्ड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक :	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा ।
<p>(i) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की पहली या दूसरी अनुसूची में सम्मिलित एक मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता ।</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के पशु-चिकित्सा विज्ञान के जीवाणु विज्ञान या औषधि या रोग विज्ञान या परिजीवी विज्ञान या विषाणु विज्ञान या सूक्ष्म जैविकी या सार्वजनिक पशु स्वास्थ्य या औषध शास्त्र या मरक-विज्ञान या मादा रोग विज्ञान और प्रसूति या जैव रसायन में मास्टर डिग्री ।</p> <p>(iii) किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या विश्वविद्यालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या अनुसंधान संस्थानों या लोक उपक्रमों या पशु चिकित्सालय के पशु रोग अन्वेषण और नियंत्रण प्रयोगशाला में तीन वर्ष का अनुभव ।</p>			
<p>टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं । संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।</p>			

(7)

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं। संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)

सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पण 1 : पदधारी द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :

(क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और

(ख) जो स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुमान रखते हैं।

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

1. पशु चिकित्सा आयुक्त, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग—सदस्य
2. संयुक्त सचिव (पशुधन), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग—सदस्य
3. निदेशक या उप सचिव (पशुपालन) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग—सदस्य

सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[फा. सं. 39-1/2009-प्रशा.-III]

आर. एस. जयाल, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd November, 2012

G.S.R. 290.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Quarantine Officer, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial, Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done, before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Quarantine Officer in Animal Quarantine and Certifications Services, subordinate office under Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Quarantine Officer, Group 'A', Animal Quarantine and Certification Services, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.**—The number of posts, its classification, and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band and Grade pay or scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Quarantine Officer	*04 (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band (PB-3) Rs. 15,600-39,100 (Grade pay of Rs. 5,400)	Not applicable	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except the closing date prescribed for those from Assam, Meghalaya, Arunachal



(6)

Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation or absorption percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential :</b></p> <p>(i) A recognized Veterinary Degree Qualification included in First or Second Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984.</p> <p>(ii) Post Graduate Degree in Veterinary Science in Bacteriology or Medicine or Pathology or Parasitology or Virology or Microbiology or Veterinary Public Health or Pharmacology or Epidemiology or Gynecology and Obstetrics or Biochemistry of a recognised University.</p> <p>(iii) Three years' laboratory experience in animal disease investigation and their control in any State Government or Central Government or University or Indian Council of Agricultural Research or Research Institutions or Public Sector Undertakings or Veterinary Hospital.</p>	Not applicable	Two years	By direct recruitment.

**Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public

(7)

Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2 :** The qualification regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up vacancies reserved for them.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee Exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p><b>By Direct recruitment.</b></p> <p><b>Note 1 :</b> vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by transfer on deputation basis from amongst officers of Central Government :</p> <p>(a) holding analogous posts on regular basis; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).</p> <p><b>Note 2 :</b> Period of Deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same of some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation basis shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications).</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Animal Husbandry Commissioner, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries—Chairman</li> <li>2. Joint Secretary (Livestock Health), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries—Member</li> <li>3. Director or Deputy Secretary, (Animal Husbandry), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries—Member.</li> </ol>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.</p>

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2012

सा.का.नि. 291.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय मत्स्य उद्योग नाविक और इंजीनियरी संस्थान (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1985 को, जहां तक उसका संबंध गेस्टेनर ऑपरेटर और सह-ब्लू प्रिंट मशीन ऑपरेटर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चिन में गेस्टेनर ऑपरेटर-सह-ब्लू प्रिंट मशीन ऑपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चिन, गेस्टेनर ऑपरेटर-सह-ब्लू प्रिंट मशीन ऑपरेटर भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गेस्टेनर ऑपरेटर-सह-ब्लू प्रिंट मशीन ऑपरेटर	1(एक)* (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
--	--

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में ऐसे बहुकार्य कर्मचारीवृंद जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जो गेस्टेटर या ब्लू प्रिंट मशीन चलाने में प्रवीण हो और जिन्होंने विभागीय कुशलता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
--	--

(12)	(13)
------	------

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में  
विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

लागू नहीं होता

1. निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, नाविक और  
इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि — अध्यक्ष
2. ज्येष्ठ अनुदेशक (नौ इंजीनियर), केन्द्रीय  
मत्स्य उद्योग, नाविक और इंजीनियरी  
प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि — सदस्य
3. उप निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, नाविक  
और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, विशाखापटनम — सदस्य
4. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग,  
नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान — सदस्य
5. एक समूह के अधिकारी जिसके अधीन समूह ग  
अधिकारी कार्यरत हैं — सदस्य

[फा. सं. 3-13/2012-मा. प्रशा.]  
सुदीपा कोहली, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 2012

G. S. R. 291.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training (Group 'C' and Group 'D' Posts)

Recruitment Rules, 1985, insofar as they relate to the post of Gestetner Operator-cum-Blue Print Machine Operator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Gestetner Operator-cum-Blue Print Machine Operator in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, in the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, Gestetner Operator-cum-Blue Print Machine Operator Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band, grade pay or pay scale.**—The number of the said post, its classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gestetner Operator-cum-Blue Print Machine Operator	One (1)* (2012) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group-C, Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-I, Rs. 5200-20200 + grade pay of Rs. 1900	Non-selection	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	
(7)		(8)		(9)	
Not applicable		Not applicable		Two years	

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(10)

(11)

By Promotion

Multitasking staff in PB-1 Rs. 5200–20200 with grade pay of Rs. 1800 with three years' regular service in the grade possessing proficiency in handling Gestetner or Blue Print Machines and having successfully completed the Departmental Skill test.

If a Departmental Promotion Committee exists what is the composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—

Not applicable

1. Director, Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Kochi — Chairman
2. Senior Instructor (Marine Engineering), Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Kochi — Member
3. Deputy Director, Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Visakhapatnam — Member
4. Senior Administrative Officer, Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training — Member
5. A Group A Officer under whom the Group C Officer is working — Member

[F. No. 3-13/2012-Fy. Admn.]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.